

प्रेस नोट

दीव में आयोजित हुआ चौथा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस

दीव, दिनांक 21 जून, 2018 - संघ प्रदेश दमण एवं दीव के दीव जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 21 जून, 2018 को बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह योग दिवस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोघला, दीव के सौजन्य से आयोजित किया गया था। 27 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र की 69 वीं बैठक को संबोधित करते हुए आह्वान किया था कि 21 जून को विश्व समुदाय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, जिसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 117 समर्थक देशों ने स्वीकृत किया था। तब से 21 जून को सामूहिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री लालुभाई पटेल, समाहर्ता श्री हेमन्त कुमार, भाप्रसे, नगरपालिक अध्यक्ष श्री हितेश सोलंकी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका मुख्य अधिकारी श्रीमती वन्दना राव, भाप्रसे, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के. वाई. सुलतान, जिला शिक्षा अधिकारी श्री दिलावर डी. मनसुरी, जिला पंचायत के शिक्षा अधिकारी श्री अनिल ए. सोलंकी, दीव जिला के अग्रगण्य नगरवासी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी सहित विद्यालयों के विद्यार्थीगण, अध्यापकगण व मीडिया के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुम्बई से योग प्रशिक्षक श्री अमित दुबे और स्नेहा की उपस्थिति रही। ऊना तालुका के देलवाड़ा से योग प्रशिक्षक श्री ललित बामणिया और उनकी टीम भी पधारी थी, जिन्होंने 10 दिनों तक दीव के विविध विद्यालयों के विद्यार्थियों को योगाभ्यास कराया था। उनसे प्रशिक्षित कुमारी निधि, निष्ठा, ग्रीष्मा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिन्हें स्टेडियम के उपस्थित जनों ने तालियों की गडगडाहट में गर्मजाशी से स्वागत किया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में दीप प्राकट्य के साथ योग प्रार्थना, योगाभ्यास के दौरान प्राणायाम व योग के विविध क्रियाओं का आयोजन किया गया व विश्व मंगल के लिए संकल्प लिया गया एवं प्रार्थना के बाद आभार विधि की गई। इस कार्यक्रम के दौरान समग्र मंच संचालन सरकारी उच्च विद्यालय की सुश्री प्रतिभा गौरीशंकर स्मार्ट, सहायक अध्यापिका ने किया।

~~~